



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 555 ]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 2, 2001/कार्तिक 11, 1923

No. 555]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 2, 2001/KARTIKA 11, 1923

विदेश मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2001

सा. का. नि. 817 (अ). — भारत के असाधारण राजपत्र, दिनांक 27-7-2001 के पृष्ठ 10 पर प्रकाशित जी एस आर 576 (ई) के आंशिक संशोधन में, भाग-II, खंड 3 (i) के पैरा 1 (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

1. (1) इन नियमों को पासपोर्ट (तृतीय संशोधन) नियम, 2001 कहा जाएगा।

**टिप्पणी :** मूल नियम सं. जी. एस. आर. 691 (ई) दिनांक 11-10-1980 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए और उसके पश्चात् उनके तहत संशोधित किए गए :—

- (i) जी एस आर 50 (ई) दिनांक 7-2-1981
- (ii) जी एस आर 469 (ई) दिनांक 24-6-1982
- (iii) जी एस आर 325 (ई) दिनांक 12-4-1983
- (iv) जी एस आर 482 (ई) दिनांक 13-6-1983
- (v) जी एस आर 494 (ई) दिनांक 16-6-1983
- (vi) जी एस आर 345 (ई) दिनांक 29-3-1986
- (vii) जी एस आर 860 (ई) दिनांक 8-11-1985
- (viii) जी एस आर 857 (ई) दिनांक 13-10-1987
- (ix) जी एस आर 84 (ई) दिनांक 11-2-1988
- (x) जी एस आर 1155 (ई) दिनांक 21-11-1988
- (xi) जी एस आर 622 (ई) दिनांक 27-7-1990
- (xii) जी एस आर 100 (ई) दिनांक 4-3-1991

- (xiii) जी एस आर 275 (ई) दिनांक 20-3-1991
- (xiv) जी एस आर 586 (ई) दिनांक 21-6-1991
- (xv) जी एस आर 111 (ई) दिनांक 22-1-1992
- (xvi) जी एस आर 684 (ई) दिनांक 15-6-1992
- (xvii) जी एस आर 721 (ई) दिनांक 7-8-1992
- (xviii) जी एस आर 477 (ई) दिनांक 16-6-1993
- (xix) जी एस आर 485 (ई) दिनांक 1-7-1993
- (xx) जी एस आर 503 (ई) दिनांक 10-7-1993
- (xxi) जी एस आर 833 (ई) दिनांक 2-12-1994
- (xxii) जी एस आर 605 (ई) दिनांक 5-10-1998
- (xxiii) जी एस आर 516 (ई) दिनांक 8-7-1999
- (xxiv) जी एस आर 827 (ई) दिनांक 29-12-1999
- (xxv) जी एस आर 34 (ई) दिनांक 12-01-2000
- (xxvi) जी एस आर 472 (ई) दिनांक 22-05-2000
- (xxvii) जी एस आर 473 (ई) दिनांक 22-05-2000
- (xxviii) जी एस आर 485 (ई) दिनांक 23-05-2000
- (xxix) जी एस आर 529 (ई) दिनांक 8-6-2000
- (xxx) जी एस आर 584 (ई) दिनांक 04-07-2000
- (xxxi) जी एस आर 632 (ई) दिनांक 25-7-2000
- (xxxii) जी एस आर 487 (ई) दिनांक 26-6-2001 और
- (xxxiii) जी एस आर 527 (ई) दिनांक 13-7-2001

[फ्र. सं. V.IV/551/20/200

एस.आर. तयाल, संयुक्त सचिव (सी पी वी)

**MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 29th October, 2001

**G.S.R. 817(E).**—In partial modification of GSR 576(E) published on page 10 of the Gazette of India Extraordinary dated 27-7-2001, para 1(1) of Part II, Section 3(i) may be substituted by the following :

1. (1) These rules may be called by the Passport (Third Amendment) Rules, 2001.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India vide number GSR 691(E), dated the 11th December, 1980, and subsequently amended vide :—

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| (i) GSR 50 (E), dated 7-2-1981;       | (xiv) GSR 586 (E), dated 21-6-1991;       |
| (ii) GSR 469 (E), dated 24-6-1982;    | (xv) GSR 111 (E), dated 22-1-1992;        |
| (iii) GSR 325 (E), dated 12-4-1983;   | (xvi) GSR 684 (E), dated 15-6-1992;       |
| (iv) GSR 482 (E), dated 13-6-1983;    | (xvii) GSR 721 (E), dated 7-8-1992;       |
| (v) GSR 494 (E), dated 16-6-1983;     | (xviii) GSR 477 (E), dated 16-6-1993;     |
| (vi) GSR 345 (E), dated 29-3-1985;    | (xix) GSR 485 (E), dated 1-7-1993;        |
| (vii) GSR 860 (E), dated 8-11-1985;   | (xx) GSR 503 (E), dated 10-7-1993;        |
| (viii) GSR 857 (E), dated 13-10-1987; | (xxi) GSR 833 (E), dated 2-12-1994;       |
| (ix) GSR 84 (E), dated 11-2-1988;     | (xxii) GSR 605 (E), dated 5-10-1998;      |
| (x) GSR 1155 (E), dated 21-11-1988;   | (xxiii) GSR 516 (E), dated 8-7-1999;      |
| (xi) GSR 622 (E), dated 27-7-1990;    | (xxiv) GSR 827 (E), dated 29-12-1999;     |
| (xii) GSR 100 (E), dated 4-3-1991;    | (xxv) GSR 34 (E), dated 12-01-2000;       |
| (xiii) GSR 275 (E), dated 20-3-1991;  | (xxvi) GSR 472 (E), dated 22-05-2000;     |
|                                       | (xxvii) GSR 473 (E), dated 22-05-2000;    |
|                                       | (xxviii) GSR 485 (E), dated 23-05-2000;   |
|                                       | (xxix) GSR 529 (E), dated 8-6-2000;       |
|                                       | (xxx) GSR 584 (E), dated 04-07-2000;      |
|                                       | (xxxi) GSR 632 (E), dated 25-7-2000;      |
|                                       | (xxxii) GSR 487 (E), dated 26-6-2001; and |
|                                       | (xxxiii) GSR 527 (E), dated 13-7-2001.    |

[F. No. V.IV/551/20/2000]

S.R. Tayal, Jt. Secy. (CPV)